



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-11042025-262404
CG-MH-E-11042025-262404

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1657]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9, 2025/चैत्र 19, 1947

No. 1657]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 2025/CHAITRA 19, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 9 अप्रैल, 2025

का.आ. 1688(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिला में "पाचोरा - जामनेर का मलकापुर तक विस्तार - नैरो गेज से ब्रॉड गेज" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (१) यूटीपीएच जलगांव, जिला जलगांव, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितवद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के अंतर्गत 13 गाँव में विशेष रेल परियोजना “पाचोरा-जामनेर का मलकापुर तक विस्तार - नैरो गेज से ब्रॉड गेज” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

अ. क	भूमि अधिग्रहण प्रकरणाची संख्या	गांव का नाम	तालुका	७/१२ अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	जमीन धारणा प्रणाली	७/१२ नुसार कुल क्षेत्रफल (हे. आर.)	संपादन क्षेत्र (हे. आर.)
1	08/25	बोदवड	बोदवड	मगन नारायण तेली	68	।	8.336	0.120
2				मंगल जंगलू भोई	773	।	1.530	0.045
3				गजानन सुपडू लोहार व इतर ४	774	।	1.470	0.030
4				रामदास रामचंद्र तेली व इतर ३	771	।	2.200	0.050
5				श्री अध्यक्ष मारोती संस्था बोदवड	83	।	3.620	0.065
6				शौर्य श्याम अग्रवाल व इतर १	84	।	1.430	0.305
7				बिपिनसिंग दर्यावरसिंग चव्हाण	91	।	5.380	0.210
8				कांताबाई अशोक जैन	99	।	2.400	0.050
9				शांताराम बाबुराव बडगुजर व इतर ३	100	।	5.780	0.210
10				श्रीराम विष्णू बडगुजर	106	।	2.860	0.105
11				आसाराम नामदेव काजळे व इतर १	49	।	3.110	0.130
12				प्रवीण सुधाकर इंगळे व इतर २५	48	।	2.191	0.170
						कुल	40.31 (हे. आर.)	1.4900 (हे. आर.)
1	09/25	मालदाभाडी	जामनेर	दिलीप तुकाराम कचाटे	115	।	2.787	0.050
2				कमलबाई दगडू पाटील व इतर ३	116	।	1.371	0.230
3				गणेश तोताराम उंबरकर	114	।	5.830	0.440
4				रामलाल संपत जंगले व इतर १०	117	।	1.830	0.090
						कुल	11.82 (हे. आर.)	0.81 (हे. आर.)
1	10/25	सोनारी	जामनेर	विमलबाई लक्ष्मण ध्यार व इतर ३	66	।	4.669	0.020
2				कलावती कौतिक गायके	80	।	1.390	0.010
3				रामचंद्र प्रल्हाद ध्यार	65	।	4.054	0.250
						कुल	10.11 (हे. आर.)	0.280 (हे. आर.)

अ. क.	भूमि अधिग्रहण प्रकरणाची संख्या	गांव का नाम	तालुका	७/१२ अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	जमीन धारणा प्रणाली	७/१२ नुसार कुल क्षेत्रफल (हे. आर.)	संपादन क्षेत्र (हे. आर.)
1	11/25	खडकी	जामनेर	मनोजकुमार कडू पाटील & इतर १०	59	I	11.81	0.050
2				रवींद्र मंगी नाईक व इतर ६	62	I	2.78	0.050
3				संतोष राजेंद्र अग्रवाल व इतर ८	63	I	11.27	0.240
4				ज्ञानेश्वर रायसिंग नाईक व इतर ५	64	I	4.88	0.050
5				रामजी पहाडसिंग नाईक व इतर ११	65	I	5.91	0.090
						कुल	36.65 (हे. आर.)	0.480 (हे. आर.)
1	12/25	जलचक्र खुर्द	बोदवड	सुपमा सुधाकर वराडे व इतर १	131	I	2.460	0.040
2				विलास लक्ष्मण पाटील व इतर २	66	I	3.413	0.180
						कुल	5.87 (हे. आर.)	0.220 (हे. आर.)
1	13/25	शेलवड	जामनेर	रेखाबाई कडू बोरसे	134	I	2.245	0.170
2				अंजनाबाई सोनू पंडित व इतर २	135	I	3.829	0.100
3				प्रथमेश जितेंद्र माळी व इतर १४	136	II	5.913	0.500
4				दिलीप श्रीधर बोदडे व इतर ७	143	II	2.840	0.190
5				वंदना श्रावण सपकाळ व इतर ५	144	I	1.860	0.310
6				सुनील भास्करराव पाटील	145	I	0.513	0.010
7				अरुण सीताराम माळी व इतर ३	140	II	3.838	0.060
8				एकनाथ ओंकार सपकाळ व इतर १	198	I	2.580	0.040
						कुल	23.62 (हे. आर.)	1.380 (हे. आर.)
1	14/25	भोकरी	पाचोरा	संजीवकुमार धनराज जैन व इतर ३	4	I	0.550	0.085
2				कैलास जानकीराम माथूरवैश्य	8	I	3.52	0.065
3				मोतीराम श्यामा न्हावी व इतर ६	3	I	0.19	0.080
						कुल	4.26 (हे. आर.)	0.230 (हे. आर.)
1	15/25	पहूर	जामनेर	प्रवीण सुवालाल लोढा व इतर ७	52	I	3.79	0.035
2				संजु प्रल्हाद पाटील व इतर १	400	I	3.79	0.187
3				नीता रामेश्वर पाटील व	339	I	7.67	0.064

अ. क.	भूमि अधिग्रहण प्रकरणाची संख्या	गांव का नाम	तालुका	७/१२ अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	जमीन धारणा प्रणाली	७/१२ नुसार कुल क्षेत्रफल (हे. आर.)	संपादन क्षेत्र (हे. आर.)
				इतर ९				
4				अपूर्व दीपक कुमावत मछिंद्र हिम्मत कुमावत व इतर १	369	I	3.80	0.042
5				शिवाजी वामन कलाल व इतर ४	370	I	0.83	0.098
						कुल	19.88 (हे. आर.)	0.426 (हे. आर.)
1	16/25	टाकळी बुद्रुक	जामनेर	अशोक हरी रोकडे व इतर ७	53	I	6.80	0.100
2				विजय नारायण बोरसे व इतर ३	54	I	3.30	0.050
						कुल	10.10 (हे. आर.)	0.150 (हे. आर.)
1	17/25	मोयगाव	जामनेर	प्रकाश सहादु लोखंडे व इतर २	184	I	6.15	0.067
2				मयूर रमेशसिंग महाले अपाक शिलाबाई व इतर ३	185	I	3.98	0.070
						कुल	10.13 (हे. आर.)	0.137 (हे. आर.)
1	18/25	जामनेर	जामनेर	किशोर रघुनाथ बारी व इतर १	173	I	1.67	0.020
2				रणजीत रामदास वाघ	174	I	1.69	0.145
3				येनूबाई रमेश माळी	177	I	1.37	0.062
4				जानेश्वर अर्जुन सोनावणे व इतर १	178	I	1.31	0.260
5				सोपान भगवान माळी	324	I	1.32	0.038
6				कांतीलाल मोहनलाल बोहरा व इतर १	180	I	1.64	0.130
7				सितेश अशोक महाजन व इतर १	319	I	3.77	0.176
8				विकास कांतीलाल बोहरा	317	I	1.28	0.142
9				बळीराम चांगो चौधरी व इतर १	196	I	2.27	0.112
10				मंगलाबाई लक्ष्मण माळी	110	I	2.14	0.349
11				जगन शंकर सुरळकर व इतर ४	220	I	2.02	0.075
12				सांडू ओंकार माळी व इतर २	109	I	2.16	0.158
						कुल	22.64 (हे. आर.)	1.667 (हे. आर.)
1	19/25	शेंदुर्णी	जामनेर	अ. रशिद शे. मिया व इतर १८	81	I	8.53	0.200
2				सुहास शांतीलाल जैन	1350	I	1.14	0.240
3				शेनफडू तुकाराम कोळी व इतर १	79	II	1.53	1.100

अ. क.	भूमि अधिग्रहण प्रकरणाची संख्या	गांव का नाम	तालुका	७/१२ अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	जमीन धारणा प्रणाली	७/१२ नुसार कुल क्षेत्रफल (हे. आर.)	संपादन क्षेत्र (हे. आर.)
4				सुमनबाई प्रल्हाद गुजर व इतर २	77	।	3.28	0.210
5				गरिबदास शंकर कोळी	78	।	0.69	0.155
6				लोकेश गोविंदा पाटील व इतर २०	1369	।	1.68	0.265
7				संजय शांतीलाल जैन	74	।	0.89	0.030
8				शीतल शांतीलाल जैन व इतर १	72	।	0.72	0.082
9				प्रकाश लक्ष्मण गरुड व इतर ३	73	।	1.67	0.120
10				ओंकार श्रावण गुजर	1372	।	0.0179	0.261
11				सेकंडरी एडुकेशन सोसायटी	1373	।	2.51	0.130
						कुल	22.66 (हे. आर.)	2.793 (हे. आर.)
1	81/24	मोराड दिगर	जामनेर	विनोद शिवाजी पाटील & इतर २	164	।	2.84	0.400
						कुल	2.84 (हे. आर.)	0.400 (हे. आर.)
						कुल योग (हे.आर.)	220.89 (हे. आर.)	10.463 (हे. आर.)

[फा. सं. G197/PC-JMNR/13 vlg/Bodwad & Pachora/April/20A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th April, 2025

S.O. 1688(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Pachora – Jamner with Extension upto Malkapur – Narrow Gauge to Broad Gauge** in the District of Jalgaon in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Special Land Acquisition Officer (1) UTPH Jalgaon, District Jalgaon** Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of Pachora-Jamner with Extension upto Malkapur-Narrow Gauge to Broad Gauge for 13 villages in the District Jalgaon in the State of Maharashtra.

S.N.	Land Acquisition Case No.	Name of Village	Taluka	Land Owners Name according to 7/12	Survey No./ Gutt No.	Land Holding Method	Area as per 7/12 Extracts (Ha.)	Acquisition Area (H.R)
1	08/25	Bodwad	Bodwad	Magan Narayan Teli	68	I	8.336	0.120
2				Mangal Jangalu Bhoi	773	I	1.530	0.045
3				Gajanan Supadu Lohar & 4 Others	774	I	1.470	0.030
4				Ramdas Ramchandra Teli & 3 Others	771	I	2.200	0.050
5				Shri. President Maruti Sansthan Bodwad	83	I	3.620	0.065
6				Shaurya Shyam Agrawal & 1 Other	84	I	1.430	0.305
7				Bipinsing Daryavarsing Chavhan	91	I	5.380	0.210
8				Kantabai Ashok Jain	99	I	2.400	0.050
9				Shantaram Baburao Badgujar & 3 Others	100	I	5.780	0.210
10				Shri Ram Vishnu Badgujar	106	I	2.860	0.105
11				Aasaram Namdeo Kajale & 1 Other	49	I	3.110	0.130
12				Pravin Sudhakar Ingle & 25 Others	48	I	2.191	0.170
						Total	40.31 (H.R)	1.490 (H.R)
1	09/25	Maldabhadri	Jamner	Dilip Tukaram Kachate	115	I	2.787	0.050
2				Kamalbai Dagadu Patil & 3 Others	116	I	1.371	0.230
3				Ganesh Totaram Umbarkar	114	I	5.830	0.440
4				Ramlal Sampat Jangale & 10 Others	117	I	1.830	0.090
						Total	11.82 (H.R)	0.810 (H.R)
1	10/25	Sonari	Jamner	Vimalbai Laxman Dhyar & 3 Others	66	I	4.669	0.020
2				Kalavati Kautik Gaike	80	I	1.390	0.010
3				Ramchandra Pralhad Dhyar	65	I	4.054	0.250
						Total	10.11 (H.R)	0.280 (H.R)
1	11/25	Khadki	Jamner	Manoj Kumar Kadu Patil & 10 Others	59	I	11.81	0.050
2				Ravindra Mangi Naik & 6 Others	62	I	2.78	0.050
3				Santosh Rajendra Agrawal & 8 Others	63	I	11.27	0.240
4				Dhyaneshwar Raising Naik & 5 Others	64	I	4.88	0.050
5				Ramji Pahadsingh Naik & 11 Others	65	I	5.91	0.090
						Total	36.65 (H.R)	0.480 (H.R)
1	12/25	Jalchakra Khurd	Bodwad	Shushma Sudhakar Varade & 1 Other	131	I	2.460	0.040
2				Vilas Laxman Patil & 2 Others	66	I	3.413	0.180
						Total	5.87 (H.R)	0.220 (H.R)

S.N.	Land Acquisition Case No.	Name of Village	Taluka	Land Owners Name according to 7/12	Survey No./ Gutt No.	Land Holding Method	Area as per 7/12 Extracts (Ha.)	Acquisition Area (H.R)
1	13/25	Shelvad	Jamner	Rekhabai Kadu Borse	134	I	2.245	0.170
2				Anjanabai Sonu Pandit & 2 Others	135	I	3.829	0.100
3				Prathamesh Jitendra Mali & 14 Others	136	II	5.913	0.500
4				Dilip Shridhar Bodade & 7 Others	143	II	2.840	0.190
5				Vandana Shravan Sapkal & 5 Others	144	I	1.860	0.310
6				Sunil Bhaskarrao Patil	145	I	0.513	0.010
7				Arun Sitaram Mali & 3 Others	140	II	3.838	0.060
8				Eknath Onkar Sapkal & 1 Other	198	I	2.580	0.040
						Total	23.62 (H.R)	1.380 (H.R)
1	14/25	Bhokari	Pachora	Sanjivkumar Dhanraj Jain & 3 Others	4	I	0.550	0.085
2				Kailash Jankiram Mathurvaishya	8	I	3.52	0.065
3				Motiram Shyama Nhavi & 6 Others	3	I	0.19	0.080
						Total	4.26 (H.R)	0.230 (H.R)
1	15/25	Pahur	Jamner	Pravin Suvalal Lodha & 7 Others	52	I	3.79	0.035
2				Sanju Pralhad Patil & 1 Other	400	I	3.79	0.187
3				Nita Rameshwar Patil & 9 Others	339	I	7.67	0.064
4				Apurva Deepak Kumavat, Machindra Himmat Kumavat & 1 Other	369	I	3.80	0.042
5				Shivaji Waman Kalal & 4 Others	370	I	0.83	0.098
						Total	19.88 (H.R)	0.426 (H.R)
1	16/25	Takali Budruk	Jamner	Ashok Hari Rokade & 7 Others	53	I	6.80	0.100
2				Vijay Narayan Borse & 3 Others	54	I	3.30	0.050
						Total	10.10 (H.R)	0.150 (H.R)
1	17/25	Moygaon	Jamner	Prakash Sahadu Lokhande & 2 Others	184	I	6.15	0.067
2				Mayur Rameshsingh Mahale Apak Shilabai & 3 Others	185	I	3.98	0.070
						Total	10.13 (H.R)	0.137 (H.R)
1	18/25	Jamner	Jamner	Kishor Raghunath Bari & 1 Other	173	I	1.67	0.020
2				Ranjit Ramdas Wagh	174	I	1.69	0.145
3				Yenubai Ramesh Mali	177	I	1.37	0.062
4				Dhyaneswar Arjun Sonawane & 1 Other	178	I	1.31	0.260
5				Sopan Bhagwan Mali	324	I	1.32	0.038
6				Kantilal Mohanlal Bohara & 1 Other	180	I	1.64	0.130
7				Sitesh Ashok Mahajan & 1 Other	319	I	3.77	0.176
8				Vikas Kantilal Bohara	317	I	1.28	0.142
9				Baliram Chango Chaudhari & 1 Other	196	I	2.27	0.112
10				Manglabai Laxman Mali	110	I	2.14	0.349

S.N.	Land Acquisition Case No.	Name of Village	Taluka	Land Owners Name according to 7/12	Survey No./ Gutt No.	Land Holding Method	Area as per 7/12 Extracts (Ha.)	Acquisition Area (H.R)
11				Jagan Shankar Suralkar & 4 Others	220	I	2.02	0.075
12				Sandu Onkar Mali & 2 Others	109	I	2.16	0.158
						Total	22.64 (H.R)	1.667 (H.R)
1	19/25	Shendurni	Jamner	A. Rashid Sk. Miya & 18 Others	81	I	8.53	0.200
2				Suhas Shantilal Jain	1350	I	1.14	0.240
3				Shenfadu Tukaram Koli & 1 Other	79	II	1.53	1.100
4				Sumanbai Pralhad Gujar & 2 Others	77	I	3.28	0.210
5				Garibdas Shankar Koli	78	I	0.69	0.155
6				Lokesh Govinda Patil & 20 Others	1369	I	1.68	0.265
7				Sanjay Shantilal Jain	74	I	0.89	0.030
8				Shital Shantilal Jain & 1 Other	72	I	0.72	0.082
9				Prakash Laxman Garud & 3 Others	73	I	1.67	0.120
10				Onkar Shravan Gujar	1372	I	0.017	0.261
11				Secondary Education Society	1373	I	2.51	0.130
						Total	22.66 (H.R)	2.793 (H.R)
1	81/24	Morad Digar	Jamner	Vinod Shivaji Patil & 2 Others	164	I	2.84	0.400
						Total	2.84 (H.R)	0.400 (H.R)
						Grand Total (H.R)	220.89 (H.R)	10.463 (H.R)

[F. No. G197/PC-JMNR/13 vlgS/Bodwad & Pachora/April/20A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)